

राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के संकेतक

परिशिष्ट-7

(करोड़ रुपये में)

	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	वास्तविक	आय-व्ययक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
(ए) राज्य का राजस्व लेखा							
1-स्वयं का कर राजस्व	2513.78	2745.43	2887.47	3119.76	3743.72	4305.27	4951.06
2- करेत्तर राजस्व	646.82	883.36	892.45	897.23	986.96	1065.91	1151.19
3-स्वयं का राजस्व	3160.60	3628.79	3779.92	4017.00	4730.67	5371.19	6102.25
4- केन्द्रीय करों से राज्यांश	1131.83	1245.09	1339.31	1679.90	1915.08	2183.19	2488.84
5- आयोजनागत अनुदान	1630.14	2748.14	2748.14	3508.40	3847.05	4231.76	4654.93
6- आयोजनेत्तर अनुदान	1450.65	1394.47	1394.47	1251.27	1061.56	1061.56	1061.56
7- कुल केन्द्रीय अन्तरण (4 से 6)	4212.62	5387.70	5481.93	6439.56	6823.69	7476.51	8205.33
8- कुल राजस्व प्राप्ति (3+7)	7373.22	9016.49	9261.84	10456.56	11554.36	12847.69	14307.58
9- आयोजनागत व्यय	1582.53	2319.15	2366.49	2515.69	2716.95	3015.81	3347.55
10- आयोजनेत्तर व्यय	4894.31	5753.43	5788.64	6146.84	7180.52	7840.39	8528.33
11- वेतन भुगतान	1787.55	2580.02	2497.50	2825.63	3578.98	3863.37	4170.73
12- पेंशन भुगतान	527.02	599.97	659.97	699.76	900.43	963.46	1030.90
13-ब्याज भुगतान	964.23	1150.42	1187.42	1249.03	1389.60	1528.56	1681.42
14- अनुदान(सब्सिडी)-सामान्य							
15- अनुदान(सब्सिडी)-विद्युत							
16- राजस्व व्यय	6476.84	8072.58	8155.13	8662.53	9897.46	10856.20	11875.88
17- वेतन +पेंशन + ब्याज	3278.80	4330.41	4344.89	4774.42	5869.01	6355.40	6883.05
18- राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत (17/8)	44.47%	48.03%	46.91%	45.66%	50.79%	49.47%	48.11%
19- राजस्व बचत/घाटा (8-16)	-896.38	-943.91	-1106.71	-1794.03	-1656.90	-1991.50	-2431.70
(बी) समेकित राजस्व लेखा							
1. ऊर्जा क्षेत्र की लाभ/हानि							
(अनुदान को हटाकर)							
2- वर्ष के दौरान डैटर की वृद्धि							
3- आफ बजट ऋण एवं एस0पी0वी कर्ज पर ब्याज							
4- कुल योग (1 से 3)							
5- समेकित राजस्व बचत/घाटा	-896.38	-943.91	-1106.71	-1794.03	-1656.90	-1991.50	-2431.70
(सी) समेकित ऋण							
1- अवशेष ऋण एवं दायित्व *	12145.63	13087.05	13087.05	14058.41	15458.83	17007.03	18517.76
2-कुल अवशेष गारन्टी	1712.44	1627.38	1737.52	1676.60	1676.60	1676.60	1676.60
(क) बजटेंड तथा एस0पी0वी0 ऋण हेतु							
गारन्टी							
(डी) पूँजी लेखा							
1- पूँजीगत परिव्यय	1699.26	2377.37	2606.86	2802.45	3026.65	3359.58	3729.13
2- ऋण एवं अग्रिम	102.38	183.12	262.88	407.12	439.69	483.66	532.03
3-ऋणों की वसूली	19.50	156.36	156.36	260.24	409.01	303.55	318.72
4-अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	1904.36	1695.74	1695.74	1395.58	1400.42	1548.20	1510.73
(इ) राजकोषीय घाटा	-885.77	-1460.21	-1606.66	-1155.30	-1400.42	-1548.20	-1510.73
सकल घरेलू राज्य उत्पाद	29881.13	34548.42	34548.42	40031.83	46899.12	53933.99	62024.09
प्रचलित दर पर वृद्धि दर	15.92%	15.62%	15.62%	15.87%	17.15%	15.00%	15.00%

*इसमें भविष्य निधि की धनराशि भी सम्मिलित है।

	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	वास्तविक	आय-व्ययक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
(ए) राज्य का राजस्व लेखा							
1-स्वयं का कर राजस्व	8.41%	7.95%	8.36%	7.79%	7.98%	7.98%	7.98%
2- करेत्तर राजस्व	2.16%	2.56%	2.58%	2.24%	2.10%	1.98%	1.86%
3-स्वयं का राजस्व	10.58%	10.50%	10.94%	10.03%	10.09%	9.96%	9.84%
4- केन्द्रीय करों से राज्यांश	3.79%	3.60%	3.88%	4.20%	4.08%	4.05%	4.01%
5- आयोजनागत अनुदान	5.46%	7.95%	7.95%	8.76%	8.20%	7.85%	7.51%
6- आयोजनेत्तर अनुदान	4.85%	4.04%	4.04%	3.13%	2.26%	1.97%	1.71%
7- कुल केन्द्रीय अन्तरण (4 से 6)	14.10%	15.59%	15.87%	16.09%	14.55%	13.86%	13.23%
8- कुल राजस्व प्राप्ति (3+7)	24.68%	26.10%	26.81%	26.12%	24.64%	23.82%	23.07%
9- आयोजनागत व्यय	5.30%	6.71%	6.85%	6.28%	5.79%	5.59%	5.40%
10- आयोजनेत्तर व्यय	16.38%	16.65%	16.76%	15.35%	15.31%	14.54%	13.75%
11- वेतन भुगतान	5.98%	7.47%	7.23%	7.06%	7.63%	7.16%	6.72%
12- पेंशन भुगतान	1.76%	1.74%	1.91%	1.75%	1.92%	1.79%	1.66%
13-ब्याज भुगतान	3.23%	3.33%	3.44%	3.12%	2.96%	2.83%	2.71%
14- अनुदान-सामान्य	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
15- अनुदान-विद्युत	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16- राजस्व व्यय	21.68%	23.37%	23.60%	21.64%	21.10%	20.13%	19.15%
17- वेतन् +पेंशन + ब्याज	10.97%	12.53%	12.58%	11.93%	12.51%	11.78%	11.10%
18- राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत (17/8)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
19- राजस्व बचत/घाटा (8-16)	-3.00%	-2.73%	-3.20%	-4.48%	-3.53%	-3.69%	-3.92%
5- समेकित राजस्व बचत/घाटा	-3.00%	-2.73%	-3.20%	-4.48%	-3.53%	-3.69%	-3.92%
(सी) समेकित ऋण							
1- अवशेष ऋण एवं दायित्व	40.65%	37.88%	37.88%	35.12%	32.96%	31.53%	29.86%
2-कुल अवशेष गारन्टी	5.73%	4.71%	5.03%	4.19%	3.57%	3.11%	2.70%
(डी) पूँजी लेखा							
1- पूँजीगत परिव्यय	5.69%	6.88%	7.55%	7.00%	6.45%	6.23%	6.01%
2- ऋण एवं अग्रिम	0.34%	0.53%	0.76%	1.02%	0.94%	0.90%	0.86%
3-ऋणों की वसूली	0.07%	0.45%	0.45%	0.65%	0.87%	0.56%	0.51%
4-अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	6.37%	4.91%	4.91%	3.49%	2.99%	2.87%	2.44%
(इ) राजकोषीय घाटा	-2.96%	-4.23%	-4.65%	-2.89%	-2.99%	-2.87%	-2.44%

[illegible]

[illegible]